




ध्वनि विज्ञान

ध्वनियंत्र –


1. नासिकाविवर
2. श्वासनली
3. स्वरयंत्र—स्वरयंत्र मुख, स्वर तंत्री,
4. अलिजिह्वा (काकल)
5. ग्रासनली(भोजन नलिका)
6. ओष्ठ
8. दंत
9. मुख विवर
10. तालु— वर्त्स, मूर्धा, कठोर तालु, कोमल ताल,
11. जिह्वा— जिह्वानोक (जिह्वाग्र), जिह्वामध्य, जिह्वापश्च





नासिकाविवर




ADAM.




श्वासनली



स्वरयंत्र-स्वरयंत्र मुख, स्वर तंत्री




स्वरयंत्र— स्वरयंत्र मुख, स्वर –तंत्रि




मुख विवर

ओष्ठ, दंत, तालु- वर्त्स, मूर्धा, कठोर तालु, कोमल तालु,




ग्रासनली(भोजन नलिका)



नासिकाविवर

मुख विवर

अलिजिह्वा (काकल)



ध्वनियों का वर्गीकरण –

स्वरों का वर्गीकरण

1. जिह्वा की ऊँचाई के अनुसार
(विवृत्त, अर्ध-विवृत्त, अर्ध-संवृत्त, संवृत्त)
2. जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार
3. ओष्ठों की स्थिति के अनुसार – प्रसृत, वर्तुल, अर्ध वर्तुल

